



HILLRIDGE INVESTMENTS LIMITED

Regd. Office : R-815, (B-11), New Rajinder Nagar, New Delhi-110060
Email : hillridgeinvest@gmail.com, Website : hillridgeinvestments.in, CIN : L65993DL1980PLC010757
Tel. : +91-11-28744604, Mob. : +91-9891095232

Date: 13/08/2020

To,
Department of Corporate Services
Metropolitan Stock Exchange of India Limited
Vibgyor Towers, 4th floor, Plot No C 62, G - Block,
Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai – 400 098

Subject: Intimation of Publication of Newspaper Notice (SYMBOL: HILLRIDGE)

Dear Sir/Madam,

We are appending below the Newspaper publications of Notice in respect “**SHIFTING OF REGISTERED OFFICE FROM NATIONAL CAPITAL TERRITORY (NCT) OF DELHI TO STATE OF MAHARASHTRA**” duly published in the Form No. INC-26 in the Vernacular newspaper in the principal vernacular language in the district and in the English Language in an English Newspaper in the state in which the registered office of the Company is situated.

You are requested to take the above on your records and acknowledge the same.

For HILLRIDGE INVESTMENTS LIMITED



Moni
(Managing Director)
DIN: 07827689
Place: New Delhi
Enc:a/a

Eighteen virus deaths in Delhi, fewest in nearly three months

MM BUREAU
New Delhi/August 12
 Delhi on Tuesday recorded eight deaths due to the coronavirus disease (Covid-19), the lowest single-day fatalities for the city in nearly three months. This is the first time since May 19 that daily deaths have dropped to single digits.

So far, 147,391 people in Delhi have been infected with SARS-CoV-2, the virus that causes Covid-19 — and 4,139 people have died. This puts Delhi's case fatality rate (CFR) — the proportion of deaths among those diagnosed with the infection — at 2.81%. To be sure, this is much higher than the national average of 1.99%.

"Today there were 8 deaths due to corona in Delhi. After many days fewer than 10 deaths have happened. We

have taken several steps to reduce the number of deaths due to corona. Our effort is to have no deaths. For us every life is precious," said Delhi chief minister Arvind Kejriwal in a tweet.

The highest single-day deaths in Delhi were lodged on June 16 when 437 fatalities were added to the daily bulletin. However, 344 of these deaths had occurred in the past and were being reconciled after being vetted by a three-member death audit committee.

The Delhi government had started reconciling the data on the deaths due to Covid-19 being reported from the city May 12 onwards after news reports highlighted that the cumulative number of deaths in the daily bulletin were much lower than deaths reported from hospitals treating Covid-19 patients.



Meanwhile, the Capital has one of the highest testing rates in the country. As of Tuesday night, over 1.2 million samples have been tested in the city, placing the Delhi at significantly better — 84.4 days.

City hospitals started reporting a surge in Covid-19 cases (and subsequently

deaths) during the second half of June. Since then, the Delhi government has significantly scaled up the city's intensive care facilities by creating more ICU beds in its hospitals — Lok Nayak, Rajendra Super Speciality and Guru Teg Bahadur hospital.

"The number of deaths due to Covid-19 has gone down because we now know that early admission in the intensive care unit and providing oxygen therapy helps," said Dr Suresh Kumar, medical director, Lok Nayak hospital — Delhi's highest Covid-19 treatment facility.

In June — after the centre stepped in to manage the crisis in Delhi — Union home minister Amit Shah had said almost half the deaths in the hospitals were happening within 48 to 72 hours of admission, meaning that patients were reaching the hospital later than needed. This, experts had said, was due to a phenomenon called "silent hypoxia", or "happy hypoxia", where patients do not have breathlessness or other symptoms despite having low oxygen saturation.

Provisions were also made to give pulse oximeters to those under home isolation to prevent deaths that were happening because of late admissions.

On June 13, the Indian Council of Medical Research also allowed the use of several agencies including Delhi government's flagship plasma therapy — for experimental use in Covid-19 patients outside of clinical trials. Hospitals have reported use of steroids, plasma therapy and drugs such as Remdesivir and Tocilizumab have helped in reducing Covid-19 mortality.

The government opened the country's first plasma bank at the Institute of Liver and Biliary Disease (ILBS), Vasant Kunj on July 2 to aid patients in getting blood-type matched convalescent plasma.

In July end, to further reduce mortality, the Delhi government also set up four panels to inspect 10 hospitals that were reporting higher number of deaths and suggest remedies. Equipping Covid-19 wards with more high-flow nasal oxygen systems, scaling up plasma therapy administration in earlier stages of treatment, early transfer of severe patients to intensive care units (ICUs), and preparing for a ICU bed augmentation strategy for a potential second wave of the pandemic were some of the steps suggested by the committee reduce deaths.

"Over the last few months, we have learnt to better manage Covid-19 patients. We now know that the patients tend to do better when put on high flow oxygen therapy rather than on a ventilator. Earlier, when the condition of the patients deteriorated they were put on ventilators and the outcomes were worse."

We also know that early intervention helps. Be it plasma therapy or other drugs, these are being given to patients early on to prevent a high viral load administration in earlier stages of treatment, early transfer of severe patients to intensive care units (ICUs), and preparing for a ICU bed augmentation strategy that leads to multi-organ failure and death," said Dr. Neeraj Gupta, professor of pulmonology at Safdarjung hospital.

FIR against 10 Asha workers for Jantar Mantar protest

MM BUREAU
New Delhi/August 12
 The Delhi Police on Tuesday filed a case against more than 100 Asha workers as well as members of Central Trade Unions for holding a protest at Jantar Mantar on Sunday in contravention of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1956 in effect to prevent the spread of Covid-19.

Accredited Social Health Activists (ASHA) have been critical in the fight against the disease, and a majority of them in the city have been on strike since July 21, demanding better wages.

They were booked for holding protests without permission and "violating social distancing norms" at the protest.

The FIR was registered at the Parliament Street



police station under Section 188 (Disobedience to order duly promulgated by public servant) of the Indian Penal Code, Section 3 of the Epidemic Disease Act and Section 51B of the Disaster Management Act, said deputy commissioner of police (New Delhi) Kish Singhla.

Singhla, who is also a spokesperson for the city police, said more than 100 Asha workers and members of Central Trade Unions had

gathered at Jantar Mantar to protest on Sunday noon. He said the police went to the protest spot and informed them no such protest or gathering was allowed in the city as per the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1956.

The protesters, however, claimed they had got permits from authorities concerned.

"When the protesters were asked to produce the permission letter they failed to do it. They were convinced, and they left Jantar Mantar after around half an hour, assuring they would submit the letter on Monday. However, nobody turned up on Monday, after which the FIR was registered," Singhla added.

The protest at Jantar Mantar was organised by the All India United Traders

SDMC gets Rs 43 crore for Centre for dust-control and waste processing measures

Our Correspondent
New Delhi/August 12
 The South Delhi Municipal Corporation (SDMC) has received Rs 42.77 crore from the Centre under the Urban Development Fund (UDF) for the current financial year to combat air pollution by introducing dust-control measures and to augment its waste-processing facilities. A proposal to use the money for the purpose was approved by the corporation's Standing Committee on Tuesday and will be presented in the House for a final approval. Civic officials said the corporation had approached the Union ministry of housing and urban affairs earlier this year for a grant under UDF for the work. Dust is a major contributor to air pollution in Delhi. The Supreme Court-appointed Environment Pollution (Control and Prevention) Authority (EPCA) had been asking the civic bodies to take measures to check road dust. Standing Committee chairman Rajdutt Gahlot said the funds will be utilised to strengthen and resurface damaged roads, develop decentralised compost plants and promote the use of recycled water by installing decentralised sewage treatment plants (STPs), among others. "Internal roads will be strengthened using this fund at 12 locations, including Malviya Nagar, Panchsheel Park, Haux Khos, Green Park Main and Extension, G.P. Park, Dwarika (poCKET-1) and Malaviya Enclave, among others, at an estimated cost of Rs 29 crore," Gahlot said. The centre said Rs 7 crore has been allocated to develop 15 waste treatment plants and lay pipelines at various locations. Besides, Rs 3.7 crore have been sanctioned for procuring five electric road sweeping machines and Rs 12 crore for installing drum composters to treat solid waste at the ward level. "The corporation has been taking various measures to combat air pollution such as making the city green and clean, including makeover of spaces under flyovers, creating vertical gardens, mechanical sweeping and sprinkling of water on roads."

CAIT ask for in-depth investigation of Chinese Hawala Racket

New Delhi/August 12
 Reacting sharply on the Chinese Hawala racket busted by the Income Tax Department yesterday pertaining to money laundering of more than 1000 crores so far, the Confederation of All India Traders (CAIT) in a letter sent to Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman and Commerce Minister Mr. Piyush Goyal has demanded an in-depth investigation of the whole racket and to investigate whether such kind of rackets are also in operation by Chinese people in the country. The CAIT has also demanded stern action against Banks like Bandhan Bank & ICIICI Bank and others for their connivance with Chinese people in the nexus of this Hawala with e-commerce companies.

CAIT National President Mr. B.C. Bhartiya & Secretary General Mr. Praveen Khandwal said that it is a sinister and malicious attempt by Chinese national might be backed by Chinese

Government to wreck the Indian economy. The CAIT has also demanded a separate intensive probe by the Enforcement Directorate as well.

The trade leaders also said that its a matter of investigation that as to how the Chinese person Luo Sang which is his real identity in China and who was operating under the name of Charlie Peng was able to secure Indian Passport from Manipur and how he was able to further secure Aadhar & PAN Number through which he operated series of Bank Accounts.

Mr. Bhartiya & Mr. Khandwal said that opening and smooth operations of about 40 Shell Bank Accounts with Chinese people is the fact that there is a close nexus of Chinese national & Bank officials and as such immediate steps should be taken to take task because of high level of defile in the Bank officials who should immediately be suspended and stern action should be taken against them.

They further said that Chinese individual was depositing and withdrawing crores of rupees in Cash on regular basis which is an abnormal transaction and every such transaction is under scanner of the bank which has to report the same to the Authorities. But in the instant case either the Banks kept a blind eye or if reported with immediate cognisance was not taken and why such transactions were continued to be allowed. Mr. Bhartiya & Mr. Khandwal said that some of the leading E-commerce Companies operating their online business activities in India are also hand in gloves with Chinese Individuals and Companies. The CAIT has urged for an investigation into the conduct of e-commerce companies in this issue. This huge revelation by the Income Tax department is ample testimony of indulging in blatant violations of India's laws by the e-com portals.

teamcait0114@gmail.com

Illegal call centre busted for duping loan seekers

MM BUREAU
New Delhi/August 12
 An illegal call centre running from outer Delhi's Rohini and cheating people in the name of providing loans from a leading financial services company has been busted by Delhi Police's cyber cell unit (CyPAD).

Seven people, including a sales promoter associated with a telecom service providing company, were arrested for cheating more than 500 loan aspirants to the tune of Rs 2.5 crore in the last two years, officials said.

Deputy commissioner of police (CyPAD) Anshel Roy said the arrested sales promoter, Pawan Mittal, is not an employee of the company but a third-party promoter.

Mittal used to activate SIM cards by illegally using documents and photographs of foreigners who had submitted them to get new numbers during their stay in India. The illegally activated SIM cards were used for contacting loan-seekers with

an intent to dupe them and avoid getting caught by law enforcement agencies, Roy said.

"As the SIM cards were activated using foreigners' documents and photographs, it became difficult to identify and nab the fraudsters," the DCP said.

Police said the call centre was busted following an investigation into a complaint filed by one Pawan Kumar, who was cheated of nearly Rs 2.19 lakh in name of providing a personal loan of Rs 10 lakh.

Kumar was trying to get a personal loan online when he came across a phone number that claimed to be associated with a leading financial services company.

"Kumar called on that number and was assured a loan at a lucrative interest rate. He was tricked into paying around Rs 2.19 lakh as processing fee and other charges."

To win his confidence, he was sent an email from an ID that looked similar to the company's official email ID, said the officer.

The loan-seeker knew he was duped when he did not receive the money and the number on which he contacted the loan provider was disconnected. A cheating case was registered on his complaint.

During the probe, DCP Roy said, the investigating team established the money trail and through technical surveillance traced the call centre to Balma.

"We first arrested Mittal who had activated the number used to call the complainant. His interrogation led to the arrest of the leader, Mohammad Irfan Saifi, who earlier worked as a telecaller at an insurance company," he said.

The other arrested persons are Vishal Tiwari, Vidhata, Amit Kumar, Gyan Singh and Rishabh Mohanand. Saifi told police that they cheated 20-25 people every month through the call centre he had established two years ago.

CISF readies for Metro reopening, no word on when services will resume

Our Correspondent
New Delhi/August 12
 The Central Industrial Security Force (CISF) has started preparations for the resumption of Metro services in Delhi-NCR, although there is no official word yet on when services will restart. According to CISF officials, they have been asked to make sure services can be resumed at short notice. Delhi Metro services have remained suspended since March 22, when the Janta curfew was observed. While other modes of public transport have been allowed, with restrictions, as part of the gradual easing of lockdown norms, the Metro, which catered to nearly 2.4 million passengers daily pre-pandemic, has remained suspended. According to a senior CISF official, who asked not to be named, the force has been directed to be prepared to resume services. An official from the ministry of home affairs, which is in charge of guidelines for unlocking services and economic activities across India, however, said there has been no date set yet by the government for the resumption of Metro services. "CISF is prepared with all security arrangements whenever it opens," another official, who didn't wish to be named, said. When contacted, housing and urban affairs (HUA) minister Hardeep Singh Puri declined comment on the matter.

Website crashes during day 2 of DU's online open-book exams

MM BUREAU
New Delhi/August 12
 Final-year undergraduate and postgraduate students of Delhi University continued to face a harrowing time on Tuesday — the second day of online open-book exams (OBE) at Delhi University — as the website briefly crashed in the afternoon while students were trying to upload their answer scripts.

"Throughout the day, students took to social media to complain about the glitches and reached out to their teachers for help."

Keruna Sawa, a final-year BCom (Hons) student, said she allotted 45 minutes of the total time just to upload her answer sheets. "While uploading my answers, the website crashed. I tried to attach my answer scripts on e-mail but even that has a limit of 25MB. It was traumatising to struggle

Monday, as per data provided by university officials, 32,000 students appeared for their exams on Tuesday. Teachers said that several students received the wrong question papers on e-mail and had to approach their colleges for the correct ones.

Pankaj Garg, a former academic council member who teaches at Rajdhani College, was among those teachers. "Students have been extremely stressed. Since uploading answers on the portal is becoming difficult, they e-mail their answer scripts to university officials and college's nodal officers. It raises concerns of duplicity if they send their answer scripts everywhere. Some students even send e-mails to colleges after the deadline due to all the confusion. So, there remains a question over whether the varsity will accept answer scripts from

colleges after the deadline," he said. Garg has also written to vice-chancellor Yogesh Tyagi asking him to look into the issues. Despite calls and messages, Tyagi did not comment on the matter on Tuesday.

DU Teachers' Association member Abha Dev Habib also raised questions over the rule of asking students to mention their name in the e-mail while sending their answer scripts. "Students fear victimisation. They are nervous about sharing their experiences in the public domain as they may face discrimination," she said.

DU Dean of Colleges Balaram Pani said, "If the portal is not working, they can e-mail us the answer scripts. The website is not the only option. Yes, we are facing issues of duplicity but we are working on finding a solution to deal with it."

Form No. INC-26
 (Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)
 Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHEN REGION, DELHI

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 AND

In the matter of ABHJIT TRADING CO. LTD (CIN: L51909DL1982PL C241785) having its Registered Office at 16/121-122, Jain Bhawan, Faz Road, W.E.A Karol Bagh, New Delhi-110005, Pte.Inc. Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of Alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Annual General Meeting held on July 27, 2020 to the "State of Maharashtra". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the Registered Office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or sent by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of objection to the Regional Director, Northern Region, New Delhi at B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, within fourteen days from the date of publication of this Notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below: 16/121-122, Jain Bhawan, Faz Road, W.E.A Karol Bagh, New Delhi-110005

For and on behalf of the Applicant
ABHJIT TRADING CO. LTD
 Sole Director
 VIRENDRA JAIN
 (Managing Director)
 DIN: 06530078

Date: 12/08/2020
 Place: New Delhi

Form No. INC-26
 (Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)
 Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGIONAL DIRECTOR, NORTHEN REGION, DELHI

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 AND

In the matter of HILLRIDGE INVESTMENTS LIMITED (CIN: L68993DL1 980PL019757) having its Registered Office at R-815 New Rajinder Nagar New Delhi-110086, Pte.Inc. Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of Alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Annual General Meeting held on July 27, 2020 to enable the Company to change its Registered office from "NCT of Delhi" to the "State of Maharashtra". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the Registered Office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or sent by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of objection to the Regional Director, Northern Region, New Delhi at B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, within fourteen days from the date of publication of this Notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below: R-815 New Rajinder Nagar New Delhi 110080

For and on behalf of the Applicant
HILLRIDGE INVESTMENTS LIMITED
 Sole Director
 Name: Moni
 (Managing Director)
 DIN: 07827689

Date: 12/08/2020
 Place: New Delhi